

# Akashdeep Metal Industries Limited

CIN: L28998DL1983PLC017150

**Registered Office :**  
14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor,  
Vikas Marg Ext., Delhi-110092  
Tel.: +91-11-43011038  
Email : info.akashdeep14@gmail.com  
Website : www.akashdeepmetal.in

Date: 08<sup>th</sup> June, 2022

To,  
The Deputy Manager,  
Department of Corporate Services,  
BSE Limited, Floor 25, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400001

Scrip Code – 538778

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In compliance with the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement with respect to change in Control/ Management in terms of Reserve Bank of India (RBI) approval and Directions and published in “**FINANCIAL EXPRESS**” and “**JANSATTA**” on Wednesday, June 08<sup>th</sup>, 2022.

Kindly take the same on your record.

Thanking you

For Akashdeep Metal Industries Limited

For Akashdeep Metal Industries Limited



Authorised Signatory/Director

Rajesh Gupta  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00006056  
Add: 25, Hargobind Enclave,  
Delhi-110092

**पंजाब नैशनाल बैंक**  
punjabnational bank  
...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय  
प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, हाराका, नई दिल्ली-110075 (ईमेल hosd@pnbc.co.in)

दोसी/ओपरीएण के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार, 30 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (IST) पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में हमारे समाचार पत्र नोटिस दिनांक 04.06.2022 (05.06.2022 को प्रकाशित) के संदर्भ में हे जोकि सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की मौखिक उपस्थिति के बिना (दोसी) / अन्य ऑडियो विडिओजल माध्यम (ओपरीएण) से हमसीए और सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार है।

दोसी (एलओडीआर) धिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार और उपरोक्त सूचना के परभाव, वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट निरामें वार्षिक आम बैठक की सूचना शामिल है, जो केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेयरधारकों [ जिन्हाकी ईमेल आईडी बैंक / डिजिटलरी पार्टीसिपिडस के साथ पंजीकृत है ] को भेज दी गई है। यह सूचना बैंक की वेबसाइट <https://www.pnbindia.in/annual-reports.html> स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.bseindia.com](https://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा एनएसडीएस की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी / प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते पंजाब नेशनल बैंक हस्ता/— (एकात्मक पक्षीयार) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 07.06.2022

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
प्रधान कार्यालय: 21-जॉइंट फ्लोर, नई दिल्ली-110008  
<https://punjabandsindbank.co.in>  
जहाँ सेवा ही जीवन है

**सार्वजनिक सूचना**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्धन और अर्धन) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, संबंधित अर्धनर सामांय लेखा में अंतर्गत सामांय राशि को अंतर्गत की जायेगी से लागू तथे की अधि के लिए अंतर्गत/अव्याकृत है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सूचना निधि (आईडीएस) में अंतर्गत कर दिया जाएगा। तदनुसार, बैंक को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धारावर्ष/अंतर्गत रहे अधिनियमों को अंतर्गत करना है।

अर्धनर सामांयों का विवरण "निवेशक सूचना" के अंतर्गत बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर उपलब्ध है।

ये शेयरधारक जिन्हें सामांय प्राप्त नहीं हुआ है, से अनुरोध है कि सामांय का दावा करने या किसी अन्य साधनता के लिए दिनांक 10.07.2022 तक निमांकित में से किराए एक पत्र पर संसर्क करें/लिखें।

मेसर्स लिंकडइन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबेल हाइस्ट, प्रधान तल प्लॉट नं. एनएच-2, एनएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जयपुर, नई दिल्ली-110058  
दूरभाष: 011-41410592/93/94  
फैक्स: 011-41410591  
ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कंपनी सचिव प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर क्लर्क) बैंक हाउस, 21, राजेज लोड नई दिल्ली - 110008  
दूरभाष: 011-25782926 / 25812922  
ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

साकेत मेहरोत्रा कंपनी सचिव

**धनवंतरी जीवन रेखा लिओ**  
CIN:L85110UP1993PLC015458  
पंजीकृत कार्यालय 1, साकेत, मेरठ-205003 पृथी फोन 0121-2648151-52, 2651801, फैक्स 2651803  
e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com ; [www.djfr.org.in](http://www.djfr.org.in)

**असाधारण आम सभा, लिमिटेड-वोटिंग की सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और तदनुसार बने नियमों व सेबी (सूचीबद्धता परिवर्तन व घोषणा आवश्यकताएं) नियम 2015 (सूचीबद्धता नियमों) सहप्रतिष्ठित एमसीए राशि (दिनांकित 05/05/2020, 08/04/2020 व 13/04/2020 और सेबी संकटनर दिनांक 12/05/2020 के अनुसार) में धनवंतरी जीवन रेखा लिओ को शेयर धारकों की असाधारण आम सभा (इंजीएम), इंजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय को निमांकित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों ("ओपरीएण") द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, 30 जून, 2022 को 12.00 बजे दोपहर होगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार) में इंजीएम की सूचना उक्त सदस्यों को जिन्हे कोई ईमेल पते कंपनी/डिजिटलरी पार्टीसिपिडस के पास पंजीकृत है दिनांक 06.06.2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। जो साथ ही कंपनी की वेबसाइट [www.djfr.org.in](http://www.djfr.org.in) और सीडीएसएल की वेबसाइट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) पर भी उपलब्ध है।

इंजीएम में निमांकित किए जाने वाले व्यवसाय को दर्शाने वाले दस्तावेज इंजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 सहप्रतिष्ठित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 को अर्धनर संशोधित व सेबी (सूचीबद्धता परिवर्तन और घोषणा आवश्यकताएं) नियम 2015 के नियम 44 के अनुसार) में सदस्यों को इंजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों का प्रभाव और सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-वोटिंग) का प्रयोग करने देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सदस्यों को माताधिकार उपाके द्वारा 23 जून 2022 (कटाएक तिथि) को कंपनी में धारित उनके शेयरों के अनुपात में होगा। ई-वोटिंग हेतु निदेश इंजीएम की सूचना में दिए गए हैं। सदस्य कृपया निमांकित को ध्यान में रखें-

ए) इंजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निमादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा सम्मान होगा।  
बी) रिमोट ई-वोटिंग 27 जून 2022 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी।  
सी) रिमोट ई-वोटिंग 29 जून 2022 को सांय 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। इस दौरान सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं कम्प्यूटर सर्विजस प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, 99, मदनगरी, स्थानीय शांतिगंज के पीछे, दादा हरचुप दास गैरिडर के निम्न, नई दिल्ली-110062 अथवा सीडीएसएल को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और सिक्वेस नम्बर प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि ऐसा शेयर धारक ई-वोटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पास पहले से पंजीकृत है तो अपनी वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का मतदान के लिए प्रयोग कर सकता है। यदि उसे अपना पासवर्ड याद न हो तो वह [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध विमर्शित यूजर विवरण/पासवर्ड के विकल्प को इस्तेमाल करके अपना पासवर्ड पुनः निर्माहित कर सकता है।

ई) रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर चुके सदस्य सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन इंजीएम में पुनः मतदान के लिए अर्ह नहीं होंगे।

यदि ई-वोटिंग के संबंध में कोई जिज्ञासा या मूरा हो तो [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर सहायता लेसकन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल और एफएक्यूए को देख सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ई-मेल भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड हस्ता/— (सावित्री शर्मा) प्रबंध निदेशक

तिथि: 06.06.2022  
स्थान: मेरठ

**आकाशदीप मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: 14, दयानन्द विहार, बैकसाइड, ब्राऊन्ड प्लोेर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली - 110092  
CIN: L28998DL1983PLC017150  
ईमेल आईडी: info.akashdeep14@gmail.com; वेबसाइट: www.akashdeepmetal.in; दूरभाष/फैक्स: +91-11-47055102

**सार्वजनिक सूचना**

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनीज (अधिग्रहण का अनुमोदन अथवा नियंत्रण का हस्तांतरण) निदेशकों 2015 के अनुसार) में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीडी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या डीएनबीओएर (बीसी),029सीडीओएम(सीडीएन)-2015 दिनांक 9 जुलाई, 2015 जैसा कि समय-समय पर यथा संबंधित में एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मेसर्स आकाशदीप मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 14, दयानन्द विहार, बैकसाइड, ब्राऊन्ड प्लोेर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली - 110092 में स्थित है (जिसे यहाँ पर "कम्पनी" संदर्भित किया गया है), ने 26 अक्टूबर, 2021 को आरबीआई को कम्पनी के नियंत्रण/प्रबन्धन में बदलाव के लिए एक आवेदन दिया था एवं आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 2 जून, 2022 के माध्यम से अपनी अनापत्ति प्रदान की है, जिसके अनुसार) में, श्री सुनील कुमार मलिक, उम्र 51 वर्षसुपुत्र श्री सुभूष लाल मलिक, निवासी 159, नगर विहार मेन, दिल्ली - 110051 के पक्ष में कम्पनी के नियंत्रण/प्रबन्धन का परिवर्तन होगा ("अधिग्रहणकर्ता")। अधिग्रहणकर्ता मौजूद शेयरधारकों श्री राजेश गुप्ता ("विक्रेता") से 1,50,00,000 इक्वीटी शेयरस के आठवीं तक की इच्छा रखत एवं साथ में कम्पनी अधिग्रहणकर्ता को 20,00,00,000 इक्वीटी शेयरस को खरीदने का रसिद है और इस प्रकार कम्पनी का नियंत्रण/प्रबन्धन इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के समाप्ति पर उपरोक्त नामित अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में हो जायेगा। इस तरह के बदलाव का मुख्य उद्देश्य कम्पनी की वर्तमान गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को मजबूत और व्यापक आधार देना है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने की संभावना हो, वह अधिग्रहणकर्ता, विक्रेता अथवा कम्पनी को उपरोक्त वर्णित पत्र पर और भारतीय रिजर्व बैंक, डीएनबीएस, सेंट्रल मार्ग, नई दिल्ली-110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर उसके हित का रचनाय एवं विरोध के आधारों का उल्लेख कर सूचित कर सकते हैं।

हस्ता/—  
उपरोक्त नामित अधिग्रहणकर्ता, कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा जारी तिथि: 07.06.2022

**बैंक ऑफ इंडिया**  
जन्म, विकसित, उद्वेगित, प्रगतिशील  
एनएससी-10001, दूरभाष 011-23441427  
ईमेल आईडी- LargeCorporate@BankofIndia.co.in  
प्रधान कार्यालय, वसुंधरा विभाग

**सार्वजनिक अधिसूचना**

बैंक जो है वह निमांकित ऋणकर्ता और इसके निदेशकों/गारंटर को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार कारणों से समाविष्ट 15 दिवसीय कारण बताओ सूचना निर्गत करके स्वेच्छाकारी घुसकर्ता घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है और ऐसा इस्तिस्त्र किया जा रहा है ताकि वे स्वयंदाकत बकाया देयताओं का प्रतिपुनर्गान करने अथवा स्वेच्छाकारी घुसकर्ता के रूप में घोषणा के समझ अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। यह कारण बताओ सूचनाएं उनके उपलब्ध डाकघर पते पर स्वीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई थी और इनमें से कुछ सूचनाएं हमारे पास प्रत्यक्तताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लेट आई हैं। एनपीए ऋणकर्ताओं तथा इनके निदेशकों/गारंटरों/साझेदारों के विवरण निमानुसार हैं।

क्र. सं.	घुसकर्ता ऋणकर्ता कंपनी के प्रकार/निदेशक/गारंटर के नाम	पता
1.	मेसर्स एक्सआरएस रिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ऋणकर्ता कंपनी)	पता: शीर्ष तल, एक्सआरएस मटलीलेक्स, सिटी सेंटर, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007
2.	श्री अणिल जितल (निदेशक/गारंटर)	पता: मकान संख्या 538, सेक्टर-14, फरीदाबाद, हरियाणा-121007
3.	श्री नानक चंद तयाल (पूर्व के निदेशक/गारंटर)	पता: मकान संख्या 202, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006
4.	श्री चरुशंख सिन्हा (पूर्व के पूरणांकित निदेशक/गारंटर)	पता: मकान संख्या 207, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006
5.	एक्सआरएस रिटैल सर्विसेज लिमिटेड (निगत निर्गम)	पंजीकृत पता: एक्सआरएस मटलीलेक्स, मेजाना, इन प्लोर, सिटी सेंटर, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007
6.	एक्सआरएस रिवाल एस्टेट लिमिटेड (निगत निर्गम)	पंजीकृत पता: एक्सआरएस मटलीलेक्स, मेजाना, इन प्लोर, सिटी सेंटर, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

अब, इस सूचना के प्रकाशन के उपायों द्वारा हम एक बार पुनः उभार संर्गमित सभी व्यक्तियों को सतर्क करते हैं कि वे तत्काल हमारी बैंक आई डीएम, नई दिल्ली बुद्ध निमांकित शाखा से संसर्क करें और सूचना प्राप्त करे तथा इस प्रकाशन के 7 दिवसों के अंदर सूचना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। यदि हमें 7 दिवसों के अंदर कोई अनुपत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह नाम और सम्पत्ति का सूचना आपके विधिवत उंग से प्राप्त तो हो चुकी है परंतु आपके पास अपने पक्ष में कुछ बावतों के लिए नहीं है तथा इसके उपरांत बैंक इस विषय में निरंतर आगे की प्रक्रियामाग कारवाई करेगा।

साहायक महाप्रबंधक वसुंधरा विभाग, एच ओ

**कब्जा सूचना DCB BANK**

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आसताया तथा प्रवर्तन के प्रांतभूतिकरण एवं पुनर्निर्गम के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में डीसीबी बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सूचना को प्राप्ति को विषय से 60 दिनों के भीतर कॉलम 3 में वर्णित के अनुसार ऋणकर्ताओं/अर्ध-ऋणकर्ताओं से कथित मामों सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्निर्गम करने के लिए कहते हुए कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक पंजीकृत सूचना जारी की थी। ऋणकर्ताओं तथा सह-ऋणकर्ताओं द्वारा नीचे कॉलम 6 में वर्णित राशि के पुनर्निर्गम में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जमानत के रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे कॉलम 4 में वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	ऋण खाता	कर्जदार/सह-कर्जदार	कब्जे की तिथि
1.	17956200000462, 179426000001946	आर.बी. फैसान, बीरन्ड कुमार भण्डारी एवं नरजेश्वरी भण्डारी	कब्जे की तिथि: 02-06-2022
2.	179426000000268	श्री राम फैजिबख्त, प्रम कुमार, मुस्कान, रमेश कुमार सुदेश कुमार तथा मोहित कुमार	कब्जे की तिथि: 02-06-2022

मांगकर्ता राशि: ₹. 3141478.28/- (रुपये इकतीस लाख इकतालीस हजार चार सौ अठारह एवं अट्ठाईस पैसे मात्र)

माम सूचना की तिथि: 08-03-2022 तथा 12-01-2022

प्रतिभूति आसताया का विवरण: पंकेट नं. ई-1605, 16वीं मंजिल, टॉवर-ई, ब्लॉक-ड, अट-ए, रिजर्व, रिजर्व शिवालय, वात रोड, मोहिनददीनपुर, कनानगी, इन्दिरापुरम जी.पी. नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014.

मांगकर्ता राशि: ₹. 64,86,389.41/- (रुपये चौंसठ लाख छियासी हजार तीन सौ नवसौ एवं इकतालीस पैसे मात्र)

माम सूचना की तिथि: 08-03-2022

प्रतिभूति आसताया का विवरण: सी-26 छेडर सानं. 447, पंकेट नं. 22, ओल्ड गोविन्द पुर, नई दिल्ली-110051 तथा स्टडीस एवं युव डेव केंद्र का दृष्टिकोण।

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को उपयुक्त समीचीयों के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन उपयुक्त राशि तथा उस पर भावी ब्याज और लागत के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

दिनांक: 08.06.2022  
स्थान: नई दिल्ली और गाजियाबाद  
अधिकृत प्राधिकारी

पंजीकृत कार्यालय: 501-503, एमि नॉजल, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराकना रोड, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन: 91-11-43251111, फैक्स: 91-11-43251111, कॉर्पोरेट विभाग (CIN): U65910DL1994PLC057109

**कब्जा-नोटिस पारिशिट [सर्वे नियम 8(1)]**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्गम तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 को 54) के तहत केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत दिनांक 15.02.2022 को एक माम नोटिस जारी किया जिसमें ऋणी (i) रवि राम रेजीडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता), (ii) श्री शिव दत्त (सह-उधारकर्ता), (iii) श्रीमती रमा देवी (सह-उधारकर्ता), (iv) श्री रश्मि पाल (सह-उधारकर्ता) (अ) श्रीमती राज बाला (सह-उधारकर्ता) (vi) श्री रविंदर (vii) श्रीमती रजनी देवी (सह-उधारकर्ता) (अपभ्रम) श्री प्रदीप कुमार (सह-उधारकर्ता) (ix) श्री अंशु (सह-उधारकर्ता) को ऋण खाता संख्या सीएफएसए/18-19/03 के संबंध में नोटिस में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब्याज और अन्य के प्रभार के अधिनियमों में उल्लिखित राशि दिनांक 31.01.2022 के अनुसार देय राशि ₹.4,29,24,847/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) और वसुंधरी की तिथि तक उक्त राशि पर सांवित्तायक दरों पर आगे ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणी/बंधककर्ता, दिनांक 15.02.2022 के 13(2) में उल्लिखित राशि का पूर्ण रूप से चुकाने में विफल रहे हैं, ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 6 जून 2022 को रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे नीचे दी गई संपत्तियों के साथ सीधा न करे और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन केंपरो फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 31.05.2022 की तिथि के अनुसार 4,79,46,991/- (रुपये चार करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार नौ सौ इक्यासठ रुपये) में अनुमानित तल उस पर ब

### IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)  
 CIN : L65110TN2014PLC097792  
 Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.  
 Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022



#### Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	19661448 & 34891634	LOAN AGAINST PROPERTY	1. ATUL KUMAR BAJPAI 2. PRIYANKA BAJPAI 3. SHUBH INDUSTRIES 4. SHUBH TRADING CO	02.06.2022	40,13,082.67/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY MEASURING 5.5 MARLA, COMPRISED KHASRA NO. 144652, 2014/14496, 14497/2, 14487/2, SITUATED AT SUBHASH NAGAR, SODAL ROAD, NEAR MEHAK CINEMA, TEHSIL & DISTRICT-JALANDHAR, PUNJAB, AND BOUNDED AS: EAST: HOUSE OF OTHER, WEST: SMT. HARBHAJAN KAUR, NORTH: SH. ASHOK KUMAR, SOUTH: ROAD 25' WIDE
2	23524232 & 34230882	LOAN AGAINST PROPERTY	1. BHAGWAN SINGH 2. HARMEET KAUR	02.06.2022	27,09,911.00/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF KHASRA NO. 678/2/2-679/1 KHATTA NO. 2555/3261 JAMABADI FOR YEAR 2005-06 (KHATTA NO. 2620/3350 AS PER JAMABADI FOR YEAR 2010-11) MEASURING 133 SQ. YDS., SITUATED AT VILLAGE GILL NO. II, H.B. NO. 263 ABADII KNOWN AS NEW SHIMLAPURI TEH. AND DIST. LUDHIANA AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR ADM 20' WEST: STREET 18' WIDE ADM. 20' NORTH: KASHMIR SINGH ADM 60' SOUTH: MANJIT SINGH ADM. 60'
3	14622224 & 22390293	LOAN AGAINST PROPERTY	1. JOT PARKASH 2. KRISHAN PARKASH 3. SAKSHI KRISHAN PARKASH 4. VISHAKHA GUPTA	02.06.2022	31,85,108.31/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PRIVATE PLOT NO. 7, TOTAL AREA 200 SQ. YDS., KHASRA NO. 3186/681 MIN, SITUATED AT TUNG PAI SUB-URBAN, ABADI PREET NAGAR, AMRITSAR, PUNJAB-143001, AND BOUNDED AS: EAST: PROPERTY OF SANTOSH CHANDHA AND RAKESH KUMAR WEST: PROPERTY OF NARINDER KUMAR NORTH: GALLI 14 FEET WIDE SOUTH: PROPERTY OF OTHERS
4	15515752	LOAN AGAINST PROPERTY	1. KULDIP SINGH 2. VEENA DEVI	02.06.2022	8,23,382.90/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF KHASRA NO. 5/12 MEASURING 75 SQ. YDS., SITUATED AT VILLAGE HAIBOWAL KALAN TEHSIL AND DIST LUDHIANA, PUNJAB AND BOUNDED AS: EAST: PUNJAB SINGH, 40'0 WEST: NEIGHBOR, 40'0 NORTH: STREET, 16' 10.5", SOUTH: NEIGHBOR, 16'-10.5"
5	12970624	HOME LOAN	1. RAM MOHAN 2. POONAM MOHAN	02.06.2022	15,62,687.45/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 119, GOLDEN ENCLAVE SITUATED AT MAUJA SAID KHERI, TEHSIL RAJPURA DISTT PATIALA KHEWAT/KHATONI NO. 126/121/201 TO 208 KHASRA NO. 134 (8-0), 1 (6-5) 1346/131 (2-5) RAJPURA, PUNJAB 140401 ADMEASURING 119 SQ. YDS., AND BOUNDED AS: EAST: ROAD 25', WEST: OPEN PLOT 35'-6", NORTH: OPEN PLOT 32'-3" SOUTH: OPEN PLOT 60'-0"
6	13517548	HOME LOAN	1. SAGAR MEHRA 2. SHIV KUMAR 3. SUNITA KESHAVBEHRI	02.06.2022	21,29,794.01/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NO. 3201/10, 2161/10-8 MEASURING 56 SQ. YDS. I.E., 504 SQ. FT., & NEW MCA NO. T-14/1348 SITUATED AT AMRITSAR KATRA DULO BAZAR BABEAN, OPP BAWA LAL JI MANDIR GALLI OPP HINDU SABHA COLLEGE, CIRCULAR ROAD, AMRITSAR, PUNJAB 143001 AND BOUNDED AS: EAST: ROAD, WEST: PROP OF OTHERS, NORTH: PROP OF SOM NATH SOUTH: PROP OF CHUNI LAL

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned here in above to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Sd/-  
 Authorized Officer  
 IDFC FIRST Bank Limited  
 (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)  
 Date : 08.06.2022  
 Place : PUNJAB



### NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of M/s Dhanvantri Jeevan Rekha Limited will be held on Thursday, 30<sup>th</sup> day of June, 2022 at 12:00 Noon through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Mean (OAVM), to transact the Business, as set out in the Notice of EGM in compliance with the Companies Act, 2013 (the act) and rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation, 2015 (Listing Regulations) read with the MCA circulars dated 5 May, 2020, 8 April, 2020 and 13<sup>th</sup> April, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020.

In compliance with the aforesaid circulars, Notice of the EGM has been sent on 06.06.2022 in electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participates and is also available on the company's website: www.djrl.org.in and on the website of (CDSL) www.cdslindia.com.

The relevant documents pertaining to the item of business to be transacted at the EGM are also available for inspection at the Registered office of the Company during the working days from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. upto the date of the EGM. In compliance with section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the members are provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL the voting right of members shall be in proportion to the equity shares held by them of the company as on 23<sup>rd</sup> June 2022 (cut-off date).

- The instructions for e-voting are given in the Notice of the EGM. Members are requested to note the following:-
- The business as set forth in the Notice of the EGM may be transacted through voting by electronic means;
  - The remote e-voting will commence on 09:00 a.m. (IST) on 27<sup>th</sup> June, 2022.
  - The remote e-voting will end at 05:00 p.m. (IST) on 29<sup>th</sup> June 2022. During this period, members may cast their vote electronically, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter, those members, who shall be present in the EGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the EGM.
  - Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the EGM Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madanji behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi, Delhi, 110 062 or CDSL. However, if the said shareholder is already registered with CDSL for e-voting, then his existing user id and password can be used for casting the vote, If he has forgotten the password, he can reset his password by using Forgot User Details/Password' option available on www.evotingindia.com.
  - Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the EGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By order of the Board of Directors  
 For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited  
 Sd/-  
 (Shalini Sharma)  
 Managing Director

Date : 06.06.2022  
 Place : Meerut



### POSSESSION NOTICE (For Immovable property only)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the authorized officer of the BANK OF BARODA under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 24.03.2022 calling upon the borrower Mr. Nitin Sharma S/o Shiv Kumar Sharma, Co-Borrower Shiv Kumar Sharma S/o Sant Lal Sharma & Mrs. Shikha Sharma (W/O Nitin Sharma) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 14,92,844.37 (Fourteen Lakhs Ninety Two Thousand Eight Hundred Forty Four and Thirty Seven Paise only) + Future Interest and other charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 6th day of June of the year 2022.

The borrower/ Guarantor/ Mortgagee in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount Rs. 14,92,844.37 (Fourteen Lakhs Ninety Two Thousand Eight Hundred Forty Four and Thirty Seven Paise only) + Future Interest and other charges with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	
Equitable Mortgage of all the part and parcel consisting of Residential Built Up Property Bearing Municipal Old No 2868 & 2869/XII, New No 2026/1 & 2027/XII out of G+2 stored with roof right situated Bhim Gali in the residential area of Malka Ganj Subzi Mandi Delhi 110007 admeasuring 240 sq yds plot area in name of Shiv Kumar Sharma S/o Sant Lal Sharma, Bounded as: North- Road, South - Property No 2025, East - Other's Property, West - Gali	

Date : 06-06-2022, Place : Delhi Authorized Officer, Bank of Baroda

**AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED**  
 Registered office: 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor,  
 Vikas Marg Ext., Delhi - 110092  
 CIN: L28998DL1983PLC017150  
 Email Id: info.akashdeep14@gmail.com; Website: www.akashdeepmetal.in  
 Phone/Fax: +91-11-47055102

**PUBLIC NOTICE**

In compliance with Non-Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directors, 2015 issued by the Reserve Bank of India (RBI) vide Notification No. DNBR.(PD).029/CGM(CDS)-2015 dated 9<sup>th</sup> July, 2015 as amended from time to time, Notice is hereby given that, M/s. Akashdeep Metal Industries Limited having its registered office at 14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext., Delhi - 110092 (hereinafter referred as "the Company") had made an application dated 26<sup>th</sup> October, 2021 with the RBI for change of control/management of the Company and the RBI has vide its letter dated 2<sup>nd</sup> June, 2022 accorded its No Objection for the same, pursuant to which, there will be change of Control/Management of the Company in favour of Mr. Sunil Kumar Malik, aged 51 Years, S/o Mr. Bhushan Lal Malik, R/o 159, Gagan Vihar Main, Delhi - 110051 ("The Acquirer"). The Acquirer is intending to purchase 1,50,000 Equity shares from the Existing shareholder Mr. Rajesh Gupta ("the seller") and the Company is also making allotment of 20,00,000 Equity Shares to the Acquirer and thus control/management of the Company will be changed in favour of the Acquirer named above not before the expiry of 30 days from the publication of this Public Notice. The main purpose of such change is to strengthen and broad base the present Non Banking Financial activities of the Company.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed acquisition may intimate the Acquirer, the Seller or the Company at the above mentioned address and the Reserve Bank of India, DNBS 6, Sansad Marg, New Delhi - 110001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and grounds of objection.

Sd/-  
 Issued by the Acquirer, the Company and Sellers above named.  
 Dated: 07.06.2022

**JINDAL COKE LIMITED**  
 CIN - U23101HR2014PLC053884  
 Registered Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana  
 Corporate Office: Jindal Center, 12, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066  
 Phone No.: +91-011-26189345 Fax No. +91-11-41659169,  
 Email Id.: jindalcoke@gmail.com Website: www.jindalcoke.com

### FORM NO. CAA 2 [Pursuant to Section 230(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016] BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH COMPANY APPLICATION NO. CA(CAA) No. 8/Chd/Hry/2022

In the Matter of Companies Act, 2013;  
 And  
 In the matter of Sections 230-232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder  
 And  
 In the matter of the Composite Scheme of Arrangement amongst Jindal United Steel Limited and Jindal Coke Limited

**JINDAL COKE LIMITED**  
 [CIN:U23101HR2014PLC053884],  
 a public limited Company within the meaning of Companies Act, 2013, having its Registered Office at O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana.  
 Phone No.: +91-011-26189345 Fax No. +91-11-41659169  
 Website: www.jindalcoke.com; Email : jindalcoke@gmail.com

**APPLICANT COMPANY NO. 2/ AMALGAMATING COMPANY**

#### NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF JINDAL COKE LIMITED ("THE COMPANY")

NOTICE is hereby given that by an Order dated the 10th day of May 2022 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("NCLT") in the Company Application no. CA (CAA) No. 8/Chd/Hry/2022 (referred as "Order"), the NCLT has directed that a meeting of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company ("Meetings") be held for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the Composite Scheme of Arrangement amongst Jindal United Steel Limited (the "Amalgamated Company") and Jindal Coke Limited (the "Amalgamating Company") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder (the "Act").

In pursuance of the Order and as directed therein and in compliance with the provisions of the Act, notice is hereby given that Meetings of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Amalgamating Company will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility as under:

S.No.	Meeting of	Day and Date of Meeting(s)	Time of Meeting(s)
1	Secured Creditors	Saturday, 09th July, 2022	02:30 P.M.
2	Unsecured Creditors	Saturday, 09th July, 2022	03:30 P.M.

The deemed venue for the aforesaid Meetings shall be the Registered Office of the Amalgamating Company, i.e. O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana. Copy of the Scheme, the Notice along with the Explanatory statement under Section 102, 230 to 232 of the Act and the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 along with the annexure, can also be accessed on the website of the Amalgamating Company viz. www.jindalcoke.com and also on the website of Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company ("Link Intime") at https://instavote.linkintime.co.in/, being the agency appointed by the Amalgamating Company to provide e-voting and other facilities. In case any person, wishes to receive a physical copy of the Scheme, a requisition shall be made to the Amalgamating Company at jindalcoke@gmail.com, which can be obtained free of charge, within 1 (one) day from such requisition. Further, requisition for obtaining extracts or for inspection, could also be made by any person, at the registered office of the Amalgamating Company at O.P. Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana, between 10.00 A.M. and 12.00 Noon on all days (except Saturdays, Sundays and public holidays) prior to the date of the Meetings.

The NCLT has appointed Mr. Justice Surinder Gupta (Retd.) as Chairperson and Mr. Yash Pal Gupta, Advocate as Alternate Chairperson for the Meetings and Ms. Neelanchi Garg, Chartered Accountant, as Scrutinizer for the aforesaid Meetings. The Scheme, if so approved by the Secured Creditors and Unsecured Creditors will be subject to subsequent approval of the NCLT and such other approval(s), permission(s) and sanction(s) of regulatory authorities, as may be necessary.

Persons entitled to attend and vote at the Meetings may vote through remote e-voting / e-voting to cast their respective votes for the aforesaid Meetings by following the instructions given in the respective Notices.

Secured and Unsecured Creditor(s) entitled to attend and vote for the above said Meeting(s) of the Company, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Since the above said Meeting(s) is being held pursuant to the relevant MCA circulars and directions of NCLT through VC / OAVM facility, physical attendance of the persons has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Secured and Unsecured Creditors will not be available for the Meetings.

The cut-off date for e-voting by Secured Creditors and Unsecured Creditors shall be Tuesday, 10th May, 2022. The remote e-voting facility for the aforesaid Meetings shall start at 09th June, 2022 at 9:00 a.m. (Indian Standard Time) and end on 08th July, 2022 at 5:00 p.m. (Indian Standard Time). The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the persons and shall not be allowed to change it subsequently.

Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) whose name appear in the list of Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) of the Amalgamating Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 10th May, 2022 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting for the respective Meetings. The voting rights of the Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) shall be in proportion to the outstanding amount due by the Amalgamating Company as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 10th May, 2022.

Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) who had cast their vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the respective Meeting(s). However, the Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) may participate in the respective Meeting(s) even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the respective Meetings.

Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) who have not registered their email addresses with the Amalgamating Company and who wish to receive the notice of the Meetings of the Secured Creditor(s) and Unsecured Creditor(s) and/or login details for joining the Meeting(s) through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Amalgamating Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Secured Creditors / Unsecured Creditors, by email to the Amalgamating Company at jindalcoke@gmail.com.

In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the Secured Creditors and Unsecured Creditors may refer to the help section at https://instavote.linkintime.co.in/ or contact Mr. Swapann Naskar, Associate Vice President & Head (North India), Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH2 C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 in Contact no. (011) 41410592/93/94 (Email: swapann@linkintime.co.in) or contact the Amalgamating Company.

Mr. Justice Surinder Gupta (Retd.)  
 Chairperson Appointed for the Meetings

Dated this 07th day of June, 2022

**Punjab & Sind Bank**  
 (A Govt. of India Undertaking)  
 Where service is a way of life

### POSSESSION NOTICE

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower and guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Act on the date mentioned below in the table.

The borrower and guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab & Sind Bank for the amount and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantor	Date of Demand Notice / Date of Possession	Amount Outstanding (in Rs.)	Description of the property mortgaged / charged
1	Shri Akhlaq Ahmed S/o Nawab Ahmed (Borrower) and Sh. Wahab Ahmed S/o Nawab Ahmed (Guarantor)	03-03-2022 04-06-2022	Rs. 38,26,956.43 and interest thereon	All that part and parcel of the property consisting of entire Flat without roof rights built on house no. 39 at Ramanuj Dayal Tehsil & Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh having Sale Deed No. 8571 dated 14-11-2019 in favour of Sh. Akhlaq Ahmed, Bounded as: North - 6 Ft service lane, South - 30 Ft Road on Ground Floor, East - House No. 39A, West - House no. 38
2	Braham Pal S/o Sh. Pheru (Borrower) and smt. Mankesh W/o Braham Pal (Guarantor)	03-03-2022 04-06-2022	Rs. 25,21,463.86 and interest thereon	All that part and parcel of the property consisting of Entire Second Floor With Roof Rights, Plot No. 101 Akashwani Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh having Sale deed No. 15657 dated 13-07-2018 in favour of Braham Pal S/o Pheru. Bounded as: North - 30 ft Road, South - Plot no other, East - Plot no 102, West - Plot no 100
3	Shri Harish Shukla S/o Devraj Shukla (Borrower), Sh Mahamaya Parsad S/o Satya Narayan Raut (Guarantor)	05-02-2022 04-06-2022	Rs. 20,67,269.23 and interest thereon	All that part and parcel of the property consisting of MIG Flat No. FF-5, FIRST Floor without roof rights, part of build property No. B-1/1, Ganga Vihar, Loni, Tehsil and Distt-Ghaziabad, Uttar Pradesh., having Sale Deed No.14287 dated 27-06-2018 in favour of Harish Shukla S/o Devraj Shukla, Bounded as: North - Plot No. B1/2, South - Plot No. B-1, East - Service Lane, West - 40Ft Road

Date : 04-06-2022, Place : Pasonda Authorized Officer, Punjab & Sind Bank

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Union Bank of India**  
**POSSESSION NOTICE**  
 (For Immovable Property) (under Rule 8 (1))

Whereas, The undersigned being the authorised officer of the UNION BANK OF INDIA under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagee and also owner of the property/sureties to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this mentioned date. The borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the payment of notice amount and interest thereon to the UNION Bank of India, Respective Branch, Meerut. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrowers / Guarantor/s	Description of Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Outstanding Amount
1	Branch: R.G. College Borrower: Mr. Divesh Mittal S/o Manoj Kumar, 1365/6 Sector 1 Madhavpuram, Meerut. Co-Borrower: Mrs. Vijaya Rani W/o Manoj Kumar, 448/14 Indra Nagar 2nd Brahampuri, Kabari Bazar, Meerut. Guarantor: Mr. Sachin Kansal S/o Dinesh Kansal, 394, Shiv Shakti nagar, Vishan Chausk, Meerut City-250002	Residential House at MPL Number 1365/6/1, near Mind Power Public School, Scheme Number 10, Madhav Puram, Delhi Road, Meerut, measuring 41.00 Sq. Mtr in the name of Smt. Vijaya Mittal. Boundaries: East: H.No. 1365/5/1 of Sh. Virendra Singh, West: H.No. 1365/7/1 of Sh. Shushil, North: H.No. 1364/7/1, South: Road 6 Meter wide.	24.05.2021	02.06.2022	Rs. 6,73,433.53 + together with interest on the prevailing rate with monthly rest from 01.05.2021
2	Branch: R.G. College Borrower: Mr. Mukesh Kumar Verma S/o Mr. Dharampal, Add: H.No. 347, Gali No. 2, Om Nagar, Kankar Khera Meerut-250001. Co-Borrower: 1. Mrs. Babita Verma W/o Mr. Mukesh Kumar Verma, Add: H.No. 347 Gali No. 2, Om Nagar Kankar Khera Meerut-250001. 2. Mr. Abhishek Verma S/o Mr. Mukesh Kumar, Add: H.No. 347, Gali No. Om Nagar, Kankar Khera Meerut-250001. Guarantor: Mrs. Rajeshwari W/o Mr. Dinesh, Add: 1053, Master Colony Brahampuri, Meerut- 250001	Commercial cum Residential property at MPL Number 347, Meera Jewelers Wali Gali, Gali No. 2 Om Nagar Kankarkhara North Sardhana Road, Meerut. Measuring Area 125.41 Sq. Mtr in the Name of Mukesh Kumar Verma S/o Dharampal. Boundaries: East: Adjoining House of Urmila & Plot of Others, West: Rasta 20' wide, North: House of Yaspal, South: house of Jaiveer Singh.	22.06.2021	02.06.2022	Rs. 17,85,930.62 + together with interest on the prevailing rate with monthly rest from 01.06.2021
3	Branch: R.G. College Borrower: 1. Mr. Ashok Kumar Verma S/o Sh. Shiv Dutt Verma, 1511/1 Nandi Chauk, Near Chhotia Shiv Mandir Indira Nagar 1st Brahampuri Meerut-250002. 2. Mr. Ashok Kumar Verma S/o Sh. Shiv Dutt Verma C/o Ashok Kumar Verma, Add: H.No. 7 Rabri Wali Gali Kagzi Bazar Meerut-250002. Co-Borrower: 1. Mrs. Sadhana Devi W/o Sh. Ashok Kumar Verma, 1511/1 Nandi Chauk, Near Chhotia Shiv Mandir Indira Nagar 1st Brahampuri, Meerut-250002. 2. Mrs. Sadhana Devi W/o Sh. Ashok Kumar Verma C/o Sadhana Jewelers, Shop No. 7, Rabri Wali Gali Kagzi Bazar Meerut-250002. Guarantor: 1. Mr. Rajesh Verma S/o Sh. Shiv Dutt Verma, House No. 1701/1 Indira Nagar 1st Brahampuri, Meerut-250002. 2. Mr. Rajesh Verma S/o Sh. Shiv Dutt Verma C/o Shiv Abhushan Kala Kendra, 5 Durga Market Rabri Wali Gali Kagzi Bazar Meerut-250002.	Residential Building at MPL No. 1511/1, Part of Khasra No. 3410/2, Opposite Laxminarayan Temple Mithalla Indira Nagar 1st Brahampuri Meerut, measuring 168.89 Sq. Mtr. in the name of Sh. Ashok Kumar Verma S/o Shiv Dutt Verma. Boundaries: East: House of dhoom Singh, West: House of Bihari Lal Maheshwari, North: 14' wide Road, South: House of Others.	22.06.2021	02.06.2022	Rs. 22,35,759.90 + together with interest on the prevailing rate with monthly rest from 01.06.2021
4	Branch: R.G. College Borrower: 1. Mr. Sushil Kumar S/o Sh. Vijay Singh, 180/2, G52, Jawahar Quarters, Lal Kurli Meerut. 2. Mr. Sushil Kumar S/o Sh. Vijay Singh, H.No. 83/5, Jagriti, Vihar, Meerut. Co-Borrower: Mrs. Sumitra Devi W/o Sh. Sushil Kumar, H.No. 83/5, Jagriti Vihar, Meerut. Guarantor: Mr. Ram Niwas Sharma S/o Sh. Teeka Ram Sharma, 46, Ghopia Road, Rithani, Delhi Road, Meerut.	Commercial Shop at MPL No. 180/2/G-52, Part of Property No. 154, Near Punjab National Bank, Jawahar Quarters, Meerut, measuring 14.50 Sq. Yds in the name of Sh. Sush			